

# Surah Waqiah in Hindi

अल्लाह (ईश्वर) के नाम से, जो अत्यंत कृपालु और दयालु है

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ 1)

जब क़यामत बरपा होगी और उसके वाक़िया होने में ज़रा झूट नहीं

لَيْسَ لِيُوقِعَتِهَا كَاذِبَةٌ 2)

(उस वक़्त लोगों में फ़र्क ज़ाहिर होगा)

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ 3)

कि किसी को पस्त करेगी किसी को बुलन्द

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا 4)

जब ज़मीन बड़े ज़ोरों में हिलने लगेगी

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا 5)

और पहाड़ (टकरा कर) बिल्कुल चूर चूर हो जाएँगे

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا 6)

फिर ज़र्रे बन कर उड़ने लगेंगे

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً 7)

और तुम लोग तीन किस्म हो जाओगे

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ 8)

तो दाहिने हाथ (में आमाल नामा लेने) वाले (वाह) दाहिने हाथ वाले क्या (चैन में) हैं

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 9)

और बाएं हाथ (मैं आमाल नामा लेने) वाले (अफसोस) बाएं हाथ वाले क्या (मुसीबत में) हैं

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10)

और जो आगे बढ़ जाने वाले हैं (वाह क्या कहना) वह आगे ही बढ़ने वाले थे

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11)

यही लोग (खुदा के) मुकर्रिब हैं

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12)

आराम व आसाइश के बागों में बहुत से

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (13)

तो अगले लोगों में से होंगे

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (14)

और कुछ थोड़े से पिछले लोगों में से मोती

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ (15)

और याकूत से जड़े हुए सोने के तारों से बने हुए

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16)

तख्ते पर एक दूसरे के सामने तकिए लगाए (बैठे) होंगे

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (17)

नौजवान लड़के जो (बेहिशत में) हमेशा (लड़के ही बने) रहेंगे

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (18)

(शरबत वगैरह के) सागर और चमकदार टोंटीदार कंटर और शफ़फ़ाफ़ शराब के जाम  
लिए हुए उनके पास चक्कर लगाते होंगे

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19)

जिसके (पीने) से न तो उनको (खुमार से) दर्दसर होगा और न वह बदहवास मदहोश  
होंगे

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20)

और जिस किसिम के मेवे पसन्द करें

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (21)

और जिस किसिम के परिन्दे का गोश्त उनका जी चाहे (सब मौजूद है)

وَحُورٍ عِينٌ (22)

और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23)

जैसे एहतेयात से रखे हुए मोती

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)

ये बदला है उनके (नेक) आमाल का

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25)

वहाँ न तो बेहूदा बात सुनेंगे और न गुनाह की बात

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26)

(फहश) बस उनका कलाम सलाम ही सलाम होगा

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27)

और दाहिने हाथ वाले (वाह) दाहिने हाथ वालों का क्या कहना है

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (28)

बे काँटे की बेरो और लदे गुथे हुए

وَوَظَلِحَ مَنَّضُودٍ (29)

केलों और लम्बी लम्बी छाँव

وَوَظِلُّ مَمْدُودٍ (30)

और झरनो के पानी

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ (31)

और अनारों

وَوَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32)

मेवो में होंगे

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33)

जो न कभी खत्म होंगे और न उनकी कोई रोक टोक

وَوَفُرِّشٍ مَّرْفُوعَةٍ (34)

और ऊँचे ऊँचे (नरम गद्दो के) फ़र्शों में (मज़े करते) होंगे

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35)

(उनको) वह हूँ मिलेंगी जिसको हमने नित नया पैदा किया है

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36)

तो हमने उन्हें कुँवारियाँ प्यारी प्यारी हमजोलियाँ बनाया

عُرُبًا أَتْرَابًا (37)

(ये सब सामान)

لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38)

दाहिने हाथ (में नामए आमाल लेने) वालों के वास्ते है

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (39)

(इनमें) बहुत से तो अगले लोगों में से

وَتِلْكَ مِّنَ الْآخِرِينَ (40)

और बहुत से पिछले लोगों में से

وَأَصْحَابُ الشُّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشُّمَالِ (41)

और बाएं हाथ (में नामए आमाल लेने) वाले (अफसोस) बाएं हाथ वाले क्या (मुसीबत में) हैं

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42)

(दोज़ख की) लौ और खौलते हुए पानी

وَزُلْزُلًا مِّنْ يَّخْمُومٍ (43)

और काले सियाह धुएँ के साये में होंगे

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44)

जो न ठन्डा और न खुश आइन्द

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45)

ये लोग इससे पहले (दुनिया में) ख़ूब ऐश उड़ा चुके थे

وَكَانُوا يُصْرُؤُونَ عَلَى الْجَنَّةِ الْعَظِيمِ (46)

और बड़े गुनाह (शिरक) पर अड़े रहते थे

وَكَاُنُوا يَقُولُونَ اِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47)

और कहा करते थे कि भला जब हम मर जाएँगे और (सड़ गल कर) मिट्टी और हड्डियाँ (ही हड्डियाँ) रह जाएँगे

اَوْ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ (48)

तो क्या हमें या हमारे अगले बाप दादाओं को फिर उठना है

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ (49)

(ऐ रसूल) तुम कह दो कि अगले और पिछले

لَمَجْمُوعُونَ اِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (50)

सब के सब रोजे मुअय्यन की मियाद पर ज़रूर इकट्ठे किए जाएँगे

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51)

फिर तुमको बेशक ऐ गुमराहों झुठलाने वालों

لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُوْمٍ (52)

यक्रीनन (जहन्नूम में) थोहड़ के दरख्तों में से खाना होगा

فَمَا لِيُؤْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53)

तो तुम लोगों को उसी से (अपना) पेट भरना होगा

فَسَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54)

फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी पीना होगा

فَسَارِبُونَ شُرْبِ الْهَيْمِ (55)

और पियोगे भी तो प्यासे ऊँट का सा (डग डगा के) पीना

هٰذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56)

क़यामत के दिन यही उनकी मेहमानी होगी

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57)

तुम लोगों को (पहली बार भी) हम ही ने पैदा किया है

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58)

फिर तुम लोग (दोबार की) क्यों नहीं तस्दीक करते

أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59)

तो जिस नुत्फे को तुम (औरतों के रहम में डालते हो) क्या तुमने देख भाल लिया है क्या तुम उससे आदमी बनाते हो या हम बनाते हैं

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60)

हमने तुम लोगों में मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम उससे आजिज़ नहीं हैं

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61)

कि तुम्हारे ऐसे और लोग बदल डालें और तुम लोगों को इस (सूरत) में पैदा करें जिसे तुम मुत्तलक नहीं जानते

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62)

और तुमने पैहली पैदाइश तो समझ ही ली है (कि हमने की) फिर तुम ग़ौर क्यों नहीं करते

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63)

भला देखो तो कि जो कुछ तुम लोग बोते हो क्या

أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّازِعُونَ (64)

तुम लोग उसे उगाते हो या हम उगाते हैं अगर हम चाहते

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65)

तो उसे चूर चूर कर देते तो तुम बातें ही बनाते रह जाते

إِنَّا لَمَغْرُمُونَ (66)

कि (हाए) हम तो (मुफ्त) तावान में फँसे (नहीं)

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67)

हम तो बदनसीब हैं

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68)

तो क्या तुमने पानी पर भी नज़र डाली जो (दिन रात) पीते हो

أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (69)

क्या उसको बादल से तुमने बरसाया है या हम बरसाते हैं

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)

अगर हम चाहें तो उसे खारी बना दें तो तुम लोग यक्र क्यों नहीं करते

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71)

तो क्या तुमने आग पर भी गौर किया जिसे तुम लोग लकड़ी से निकालते हो

أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ (72)

क्या उसके दरख्त को तुमने पैदा किया या हम पैदा करते हैं

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنَسِيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (73)

हमने आग को (जहन्नुम की) याद देहानी और मुसाफिरों के नफे के (वास्ते पैदा किया)

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)

तो (ऐ रसूल) तुम अपने बुजुर्ग परवरदिगार की तस्बीह करो

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿75﴾

तो मैं तारों के मनाज़िल की कसम खाता हूँ

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿76﴾

और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿77﴾

कि बेशक ये बड़े रूतबे का कुरान है

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿78﴾

जो किताब (लौहे महफूज़) में (लिखा हुआ) है

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿79﴾

इसको बस वही लोग छूते हैं जो पाक हैं

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿80﴾

सारे जहाँ के परवरदिगार की तरफ से (मोहम्मद पर) नाज़िल हुआ है

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ ﴿81﴾

तो क्या तुम लोग इस कलाम से इन्कार रखते हो

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿82﴾

और तुमने अपनी रोज़ी ये करार दे ली है कि (उसको) झुठलाते हो

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿83﴾

तो क्या जब जान गले तक पहुँचती है

وَأَنْتُمْ جِيئْتُمْ بِهَا تَنْظُرُونَ ﴿84﴾

और तुम उस वक्त (की हालत) पड़े देखा करते हो

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85)

और हम इस (मरने वाले) से तुमसे भी ज्यादा नज़दीक होते हैं लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86)

तो अगर तुम किसी के दबाव में नहीं हो

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87)

तो अगर (अपने दावे में) तुम सच्चे हो तो रूह को फेर क्यों नहीं देते

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88)

पस अगर वह (मरने वाला खुदा के) मुकर्रेबीन से है

فَرْوَحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89)

तो (उस के लिए) आराम व आसाइश है और खुशबूदार फूल और नेअमत के बाग

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90)

और अगर वह दाहिने हाथ वालों में से है

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)

तो (उससे कहा जाएगा कि) तुम पर दाहिने हाथ वालों की तरफ़ से सलाम हो

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92)

और अगर झुठलाने वाले गुमराहों में से है

فَنَزُلُ مِنْ حَمِيمٍ (93)

तो (उसकी) मेहमानी खौलता हुआ पानी है

وَتَضْلِيئُهُ جَحِيمٍ (94)

और जहन्नूम में दाखिल कर देना

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ(95)

बेशक ये (खबर) यकीनन सही है

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ(96)

तो (ऐ रसूल) तुम अपने बुजुर्ग परवरदिगार की तस्बीह करो